



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 152) पटना, बृहस्पतिवार, 12 अप्रील 2012

सं0 वन्यप्राणी-02 / 2002—201 (ई0) / प0व0

पर्यावरण एवं वन विभाग

संकल्प

21 मार्च 2012

विषय:—जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति किए जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 237, दिनांक 13.07.10 की कंडिका-3 में संशोधन।

राज्य में वनों के आस-पास रहने वाले मनुष्यों एवं पशुधन को जंगली जानवरों के द्वारा आकस्मिक रूप से पहुँचाये जाने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए विभागीय संकल्प संख्या 237, दिनांक 13.07.10 के द्वारा पीड़ितों को मुआवजा राशि भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त विभागीय संकल्प संख्या 237, दिनांक 13.07.10 की कंडिका-3 में वर्णित फसलों की बर्बादी की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया से पीड़ितों को मुआवजा की राशि प्राप्त होने में विलम्ब को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस कंडिका को निम्नरूपेण संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है:—

“फसल बर्बादी का सत्यापन अंचलाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा अंचल निरीक्षक के माध्यम से किया जाएगा। अंचलाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त होने पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, विहित प्रणाली से भुगतान करेंगे। फसल बर्बादी का आवेदन प्राप्त होने के (पन्द्रह) दिनों के अंदर अंचलाधिकारी सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।”

2. उक्त विभागीय संकल्प की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रामावतार राम,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 152-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>